

प्रेषक,

वीरेन्द्र पाल सिंह,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक/सभापति  
उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्,  
देहरादून।

संस्कृत शिक्षा अनुभाग

देहरादून: दिनांक 13 मई, 2019

विषय-उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद् में विभिन्न संवर्ग के स्वीकृत पदों की निरन्तरता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्, देहरादून के पत्र संख्या-2408/पदों का सततीकरण/2018-19 दिनांक 31.01.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शासन के पत्र संख्या-495/XLII-1/2014-05(01)2010 दिनांक 16.09.2014 द्वारा उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्, देहरादून हेतु विभिन्न संवर्ग के सृजित 10 अतिरिक्त पदों की दिनांक 01.03.2019 से 29.02.2020 तक की निरन्तरता बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान करने की अपेक्षा की गयी है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 16.09.2014 द्वारा सृजित निम्नलिखित 10 पदों की निरन्तरता दिनांक 01.03.2019 से दिनांक 29.02.2020 तक बनाये रखने की श्री राज्यपाल इस शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि बशर्ते ये पद बिना किसी सूचना के इससे पूर्व समाप्त न कर दिये जाय:-

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान (रु०)	पदों की संख्या
1.	शोध अधिकारी	15600-30100 ग्रेड पे 5400	01
2.	शोध सहायक	9300-34800 ग्रेड पे 4200	01
3.	सहायक लेखाधिकारी	अपने संवर्ग के वेतनमान के अनुसार	01
4.	प्रधान सहायक	9300-34800 ग्रेड पे 4200	01
5.	वरिष्ठ सहायक	9300-34800 ग्रेड पे 2800	02
6.	अनुवादक	9300-34800 ग्रेड पे 2400	01
7.	वाहन चालक	आउटसोर्सिंग	01
8.	परिचारक	आउटसोर्सिंग	02
योग			10

3. उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद् हेतु सृजित पदों की सेवा नियमावली यथाशीघ्र प्रख्यापित करते हुए रिक्त पदों पर नियमानुसार भर्ती की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-2020 के अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-05-भाषा विकास 103-संस्कृत शिक्षा 08-उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद् का गठन के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों से वहन किया जायेगा।

भवदीय,


(वीरेन्द्र पाल सिंह)  
संयुक्त सचिव।

संख्या-314 (1)/XLII-1/2017-05(01)2010 एवं तददिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्, देहरादून।
3. मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त नियंत्रक, संस्कृत शिक्षा विभाग, देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

  
(अरुण कुमार)  
अनुसचिव।

क्र.सं.	दिनांक	स्थानांतरण (रु.)	पदों की संख्या
1.	महालेखाकार	15000-20100 ग्रेड पे 15000	01
2.	सचिव	18000-24000 ग्रेड पे 18000	01
3.	मुख्य शिक्षा अधिकारी	अपने-पदों की वैतनमान को अनुसार	01
4.	मुख्य कोषाधिकारी	अनुसार	01
5.	वित्त नियंत्रक	15000-20100 ग्रेड पे 15000	01
6.	गार्ड फाईल	अनुसार	01
7.	अनुसचिव	12000-16000 ग्रेड पे 12000	01
8.	सामान्य कर्मचारी	आवृत्तानुसार	01
9.	अभिलेखिक	आवृत्तानुसार	01
10.	अभिलेखिक	आवृत्तानुसार	01